



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार 4 अक्टूबर, 2011 ई0
आश्विन 12, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 308 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2011
देहरादून, 04 अक्टूबर, 2011

अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 को दिनांक 04 अक्टूबर, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19 वर्ष 2011 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011

{उत्तराखण्ड विधेयक संख्या. 19 वर्ष 2011}

अनुक्रमणिका

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	2	3

अध्याय—एक

प्रारम्भिकी

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
2. परिभाषाएं

अध्याय—दो

विशेष न्यायालयों की स्थापना

3. विशेष न्यायालयों की स्थापना
4. विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का संज्ञान
5. इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा
6. घोषणा का प्रभाव
7. अपराधों के विचारण के सम्बन्ध में विशेष न्यायालयों की अधिकारिता
8. विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ
9. विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील
10. मामलों का अन्तरण
11. किसी विचारण को स्थगित करने के लिए विशेष न्यायालय का आबद्ध नहीं होना
12. अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश कार्रवाई कर सकेगा

अध्याय—तीन

सम्पत्ति का अधिहरण

13. अधिहरण के लिए आवेदन
14. अधिहरण के लिए नोटिस

15. कतिपय मामलों में सम्पत्ति का अधिहरण
16. अन्तरण का अकृत और शून्य होना
17. अपील
18. कब्जा में लेने की शक्ति
19. अधिहृत (जब्त) धन और सम्पत्ति की वापसी

अध्याय—चार

प्रकीर्ण

20. विवरण में गलती के लिए नोटिस या आदेश का अविधिमान्य नहीं होना
21. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना
22. अन्य कार्यवाहियों का वर्जन
23. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई से संरक्षा
24. नियम बनाने की शक्ति
25. धारा 3 के अधीन अधिसूचनाओं को तथा धारा 5 के अधीन घोषणाओं को पटल पर रखना
26. अध्यारोही प्रभाव

उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011

{उत्तराखण्ड विधेयक संख्या... 19 वर्ष 2011}

अपराधों के कतिपय वर्ग के त्वरित विचारण के लिए तथा अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति के अधिहरण (जब्ती) के लिए विशेष न्यायालयों के गठन हेतु उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

अध्याय-एक

प्रारम्भिकी

- | | | | |
|----------------------------------|------------|----|--|
| संक्षिप्त
विस्तार
प्रारम्भ | नाम,
और | 1. | (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 है।
(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।
(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। |
|----------------------------------|------------|----|--|

- | | | |
|-----------|----|---|
| परिभाषाएं | 2. | जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में—
(क) 'अधिनियम' से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 अभिप्रेत है;
(ख) 'प्राधिकृत पदाधिकारी' से उत्तराखण्ड उच्च न्यायिक सेवा का ऐसा कोई सेवारत अधिकारी अभिप्रेत है, जो सत्र न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश हो या रहा हो और जिसे धारा 13 के प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाय;
(ग) 'संहिता' से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम सं० 2 वर्ष 1974) अभिप्रेत है;
(घ) 'घोषणा' से अपराध के सम्बन्ध में ऐसी घोषणा अभिप्रेत है, जो ऐसे अपराध के सम्बन्ध में धारा 5 के अधीन की गई हो;
(ङ) 'अपराध' से आपराधिक अवचार का अपराध, जो अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन स्वतंत्र रूप से या अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध या भारतीय दण्ड संहिता के किसी उपबन्ध के साथ संयुक्त रूप से लागू किये जाने योग्य हो, अभिप्रेत है; |
|-----------|----|---|

(च) 'विशेष न्यायालय' से धारा 3 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय अभिप्रेत है;

(छ) शब्द और पद जिनका इस नियमावली में प्रयोग किया गया है लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है और जिन्हें संहिता या अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो संहिता या अधिनियम में दिए गए हैं।

अध्याय—दो

विशेष न्यायालयों की स्थापना

- | | | |
|--|----|---|
| विशेष न्यायालयों की स्थापना | 3. | (1) अपराध के त्वरित विचारण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यथायथेष्ट संख्या में न्यायालयों की स्थापना करेगी, जिन्हें विशेष न्यायालय कहा जायेगा।
(2) विशेष न्यायालय की अध्यक्षता उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट न्यायाधीश द्वारा की जायेगी।
(3) ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी विशेष न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नाम—निर्दिष्ट किए जाने के लिए अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा का सदस्यन हो और जो राज्य में सत्र न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश न हो या न रहा हो। |
| विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का संज्ञान | 4. | विशेष न्यायालय ऐसे मामलों का संज्ञान लेगा और उनका विचारण करेगा, जो उसके समक्ष संस्थित किया जाए या धारा 10 के अधीन उसे अंतरित किया जाए। |
| इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा | 5. | (1) यदि राज्य सरकार की राय में प्रथम दृष्टया साक्ष्य हो कि उत्तराखण्ड राज्य में लोक पद धारण करने वाले या धारण कर चुके किसी व्यक्ति, जो भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खण्ड (ग) के अर्थान्तर्गत लोक—सेवक हो, द्वारा अभिकथित अपराध किया गया हो तो राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक मामलों में, जिसमें उसकी उपर्युक्त राय हो, उस आशय की घोषणा करेगी।
(2) ऐसी घोषणा को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा। |

घोषणा का प्रभाव 6. (1) ऐसी घोषणा की जाने पर, संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उस अपराध की बाबत कोई अभियोजन किसी विशेष न्यायालय में ही संस्थित किया जायेगा।

(2) जहाँ धारा 5 के अधीन की गई घोषणा उस अपराध से सम्बद्ध हो, जिसकी बाबत पहले ही अभियोजन संस्थित किया जा चुका हो तथा इससे सम्बन्धित कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में लम्बित हो, वहाँ इस अधिनियम के अनुसार, अपराध के विचारण के लिए ऐसी कार्यवाही, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय में अन्तरित हो जायेगी।

<p>अपराधों के विचारण के सम्बन्ध में विशेष न्यायालयों की अधिकारिता</p>	<p>7. विशेष न्यायालय को, उस अपराध के किए जाने के लिए अभिकथित किसी व्यक्ति का विचारण करने की अधिकारिता होगी, जिसकी बाबत् धारा 5 के अधीन मुख्य आरोपी, दुष्प्रेरक या षड़यंत्रकर्ता के रूप में घोषणा की गई हो तथा उन सभी का, उसके साथ संयुक्त रूप से विचारण संहिता के अनुसार एक ही विचारण में किया जा सकता है।</p>
---	--

विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और 8. (1) ऐसे मामलों के विचारण में विशेष न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट वाले मामलों के विचारण के लिए संहिता में विहित प्रक्रिया का पालन करेगा।

(2) इस अधिनियम में स्पष्टतः यथा उपबन्धित के सिवाय, संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संख्या 49 वर्ष 1988) के उपबन्ध, जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, विशेष न्यायालय की कार्यवाही पर लागू होंगे तथा उक्त उपबन्धों के प्रयोजनार्थ विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति लोक अभियोजक माने जाएंगे।

(3) विशेष न्यायालय, उसके द्वारा किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध ठहराए जाने पर, उसे उस अपराध, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध ठहराया गया हो, के लिए विधि द्वारा, जो भी दण्ड प्राधिकृत हो, उसका दण्डादेश पारित कर सकेगा।

- विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील 9. (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय के किसी निर्णय और दण्डादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय, नैनीताल में तथ्यों एवं विधि दोनों आधार पर, अपील की जायेगी।
- (2) यथा उपर्युक्त के सिवाय, विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दण्डादेश या आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील अथवा पुनरीक्षण संस्थित नहीं होगा।
- (3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील विशेष न्यायालय के निर्णय और दण्डादेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर की जाएगी, किन्तु यदि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उसका समाधान हो जाता हो कि अपीलार्थी को निर्धारित अवधि के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था तो उच्च न्यायालय उक्त तीस दिनों की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा।
- मामलों का अन्तरण 10. इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के होते हुए भी, उच्च न्यायालय नैनीताल, मामलों को एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में अन्तरित कर सकेगा।
- किसी विचारण को स्थगित करने के लिए विशेष न्यायालय का आबद्ध नहीं होना 11. (1) विशेष न्यायालय किसी विचारण को किसी प्रयोजन से तब तक स्थगित नहीं करेगा जब तक कि उसकी राय में तथा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, न्याय के हित में ऐसा स्थगन आवश्यक न हो।
- (2) विशेष न्यायालय मामले के विचारण को, यथास्थिति, इसके संस्थित किए जाने अथवा अंतरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर निस्तारित करने का प्रयास करेगा।
- अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश कार्रवाई कर सकेगा 12. विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई न्यायाधीश अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा अथवा अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा आंशिक रूप से तथा आंशिक रूप से अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकेगा।

अध्याय—तीन

सम्पत्ति का अधिहरण

अधिहरण के लिए आवेदन 13. (1) जहाँ प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर राज्य सरकार को विश्वास करने का कारण हो कि लोक (सार्वजनिक) पद धारण कर चुके या धारण कर रहे किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और वह लोक सेवक हो या रहा हो तो विशेष न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया हो या ना लिया हो, राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन लोक अभियोजक को प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष उस धन और अन्य सम्पत्ति, जो राज्य सरकार के विश्वास में उक्त व्यक्ति द्वारा अपराध के माध्यम से उपाप्त किया गया हो, के अधिकरण हेतु आवेदन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन :-

(क) एक या अधिक शपथ-पत्रों के साथ होगा, जिसमें उन आधारों का उल्लेख होगा, जिन पर यह विश्वास किया गया हो कि उक्त व्यक्ति ने अपराध किया है तथा उस धन की रकम और अन्य सम्पत्ति का मूल्य, जिसके लिए यह विश्वास किया गया हो कि अपराध के माध्यम से उपाप्त किया गया है; और

(ख) ऐसे किसी धन एवं अन्य सम्पत्ति की तत्समय अवस्थिति के सम्बन्ध में उपलब्ध कोई सूचना भी अन्तर्विष्ट होगी तथा यदि आवश्यक हो तो इस सन्दर्भ में सुसंगत समझी जाने वाली अन्य विशिष्टियाँ भी दी जाएंगी।

अधिहरण के लिए नोटिस 14. (1) इस अधिनियम की धारा 13 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत पदाधिकारी नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट समय, जो सामान्यतः तीस दिनों से कम की नहीं होगी, के अन्तर्गत आकर अपनी आय, उपार्जन या आस्तियों का वह स्रोत, जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से उसने ऐसा धन या सम्पत्ति अर्जित की है, जिस साक्ष्य पर वह निर्भर करता है तथा अन्य सुसंगत सूचना और विशिष्टियाँ देने और यह कारण बताने का कि क्यों नहीं ऐसा सारा या कोई धन या सम्पत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किया जाना घोषित किया जाय तथा क्यों नहीं उन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिगृहित कर लिया जाय, से सम्बन्धित नोटिस उस व्यक्ति (इसमें इसके बाद प्रभावित व्यक्ति के

रूप में निर्दिष्ट) को तामील करेगा, जिसके सम्बन्ध में आवेदन किया गया हो।

- (2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई नोटिस में किसी धन या सम्पत्ति या दोनों को, ऐसे व्यक्ति के निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किए जाने का विनिदेश हो, वहाँ नोटिस की प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को भी तामील की जायेगी।
- (3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्रभावित व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष अभिलिखित कराए गए साक्ष्य, सूचना और विशिष्टियाँ विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण में खण्डन किए जाने योग्य होगा :

परन्तु यह कि ऐसा खण्डन इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा अपराधी के दोष के अवधारण और न्याय निर्णयन के विचारण तक सीमित होगा।

कतिपय मामलों
में सम्पत्ति का
अधिहरण

15. (1) धारा 14 के अधीन जारी कारण पृच्छा नोटिस के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो तथा उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद और प्रभावित व्यक्ति (तथा यदि प्रभावी व्यक्ति नोटिस में विनिर्दिष्ट कोई धन या सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारण करता हो तो ऐसा अन्य व्यक्ति को भी) सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के बाद, प्राधिकृत पदाधिकारी, आदेश द्वारा अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि क्या प्रश्नगत सभी या कोई अन्य धन या सम्पत्ति विधि विरुद्ध ढंग से अर्जित की गई है।
- (2) जहाँ प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता हो कि कारण-पृच्छा नोटिस में निर्दिष्ट धन या सम्पत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं किन्तु ऐसे धन या सम्पत्ति को विनिर्दिष्टतः चिन्हित करने में समर्थ न होता हो वहाँ प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा यह विनिर्दिष्ट करना विधिपूर्ण होगा कि, उसकी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार, वह धन या सम्पत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं और उपधारा (1) के अधीन तदनुसार निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।
- (3) जहाँ प्राधिकृत पदाधिकारी इस धारा के अधीन इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करता हो कि कोई धन या सम्पत्ति या दोनों अपराध के माध्यम

से अर्जित किया गया है, वहाँ वह घोषित करेगा कि ऐसा धन या सम्पत्ति या दोनों, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, सभी ऋणभार से मुक्त राज्य सरकार को अधिहृत माने जायेंगे :

परन्तु यह कि यदि अधिहृत सम्पत्ति का बाजार मूल्य प्राधिकृत पदाधिकारी के पास जमा कर दिया जाता हो तो सम्पत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा।

- (4) जहाँ इस अधिनियम के अधीन, किसी कम्पनी का कोई शेयर राज्य सरकार को अधिहृत किया जाता हो वहाँ कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1956) में अथवा कम्पनी के संगम अनुच्छेदों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, कम्पनी तुरन्त ऐसे शेयर का अंतरिती के रूप में राज्य सरकार को रजिस्टर में दर्ज करेगी।
- (5) इस अध्याय के अधीन धन या सम्पत्ति या दोनों का अधिग्रहण (जब्ती) की प्रत्येक कार्यवाही का निष्पादन धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामिल किए जाने की तारीख से छः माह की अवधि के अन्तर्गत कर दिया जायेगा।
- (6) इस धारा के अधीन पारित अधिहरण का आदेश, धारा 17 के अधीन अपील, यदि कोई हो, में पारित आदेश के अधीन, अन्तिम होगा और किसी विधि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

अन्तरण का अकृत और शून्य होना

जहाँ धारा 14 के अधीन, नोटिस जारी किए जाने के बाद, उक्त नोटिस में निर्दिष्ट किसी धन या सम्पत्ति या दोनों का किसी भी तरीके से अन्तरण किया जाता हो, वहाँ ऐसा अन्तरण, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ, शून्य होगा और यदि ऐसा धन या सम्पत्ति या दोनों धारा 15 के अधीन बाद में राज्य सरकार को अधिहृत किया जाता हो तो ऐसा धन या सम्पत्ति या दोनों का अन्तरण अकृत और शून्य माना जायेगा।

अपील

17. (1) इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा, जिसके विरुद्ध अपील किया जाता हो।

- (2) इस धारा के अधीन कोई अपील किए जाने पर उच्च न्यायालय ऐसे पक्षकों को, जो वह उचित समझे, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यथोचित आदेश पारित कर सकेगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन की गई कोई अपील किए जाने की तारीख से अधिमानतः छः माह की अवधि के भीतर निष्पादित कर दी जाएगी और यदि किसी अपील में कोई स्थगन आदेश पारित किया जाता हो तो अपील के निष्पादन की विहित अवधि के बाद वह लागू नहीं रह जायेगी।

कब्जे में लेने की शक्ति

18. (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई धन या सम्पत्ति या दोनों राज्य सरकार को अधिहृत किया गया हो वहां सम्बद्ध प्राधिकृत पदाधिकारी प्रभावित व्यक्ति के साथ-साथ किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके कब्जे में धन या सम्पत्ति या दोनों हो, आदेश देगा कि वह आदेश तामील किए जाने के तीस दिनों के भीतर उसे सम्बद्ध प्राधिकृत पदाधिकारी को या इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को अभ्यर्पित कर दे अथवा उसका कब्जा दे दे :

परन्तु यह कि इस निमित्त आवेदन किए जाने पर तथा अपना समाधान कर लेने पर कि प्रभावित व्यक्ति प्रश्नगत सम्पत्ति में निवास कर रहा है, प्राधिकृत पदाधिकारी उसे उससे तत्काल बेकब्जा करने के बदले ऐसे व्यक्ति को विनिर्दिष्ट सीमित अवधि के लिए राज्य सरकार को बाजार दर पर किराया या भुगतान कर उसका कब्जा रखने की अनुमति दे सकेगा और उसके बाद वह व्यक्ति उस सम्पत्ति का कब्जा सौंप देगा।

- (2) यदि कोई व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश का पालन करना अस्वीकार करता हो या पालन करने में विफल रहता हो तो प्राधिकृत पदाधिकारी उस सम्पत्ति को कब्जे में ले सकेगा और तत्प्रयोजनार्थ, यथावश्यक बल का प्रयोग कर सकेगा।
- (3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्राधिकृत पदाधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी धन या सम्पत्ति या दोनों का कब्जा लेने के प्रयोजन से, सहायता के लिए किसी पुलिस पदाधिकारी की सेवा की अध्यपेक्षा कर सकेगा और ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करना, उस पदाधिकारी का आबद्धकारी कर्तव्य होगा।

- अधिहृत (जब्त) धन और सम्पत्ति की वापसी** **19.** जहाँ, धारा 15 के अधीन किए गए अधिहरण आदेश को अपील में उच्च न्यायालय द्वारा उपान्तरित या निष्प्रभावी कर दिया जाता हो या जहाँ प्रभावित व्यक्ति विशेष न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता हो, वहाँ धन या सम्पत्ति या दोनों प्रभावित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा और यदि किसी कारण से सम्पत्ति वापस करना सम्भव न हो तो उस व्यक्ति को इस प्रकार अधिहृत, सम्पत्ति की कीमत के साथ-साथ अधिहरण की तारीख से पांच प्रतिशत की दर से परिगणित ब्याज सहित धन का भुगतान किया जाएगा।

अध्याय—चार

प्रकीर्ण

- विवरण में गलती के लिए नोटिस या आदेश का अविधिमान्य नहीं होना** **20.** इस अधिनियम के अधीन जारी या तामिल कोई नोटिस की गई घोषणा और पारित कोई आदेश, उसमें उल्लिखित सम्पत्ति या व्यक्ति के विवरण में किसी गलती के कारण अविधिमान्य नहीं माना जाएगा, यदि यथा उल्लिखित विवरण से ऐसी सम्पत्ति या व्यक्ति की पहचान करने योग्य हो।
- अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना** **21.** इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसका अल्पीकरण करने वाला और इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी लोक-सेवक को ऐसी किसी कार्यवाही से, जो उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अतिरिक्त संस्थित नहीं की जा सकती हो, विवर्जित नहीं करेगी।
- अन्य कार्यवाहियों का वर्जन** **22.** धारा 9 और 17 में यथा उपबन्धित के सिवाय तथा किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 15 के अधीन किसी धन या सम्पत्ति या दोनों को अधिहृत (जब्त) किए जाने के आदेश की बाबत किसी न्यायालय में कोई वाद या विधिक कार्यवाही चलाने योग्य नहीं होगी।
- सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई से संरक्षा** **23.** इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या कोई अभियोजन या कोई विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

- नियम बनाने की शक्ति 24. राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा, यथावश्यक नियमावली, यदि कोई हो, बना सकेगी।
- धारा 3 के अधीन अधिसूचनाओं को तथा धारा 5 के अधीन घोषणाओं को पटल पर रखना 25. धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना तथा धारा 5 की उपधारा (1) अधीन की गई प्रत्येक घोषणा, जारी किए जाने या बनाये जाने के बाद, यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जाएगी।
- अध्यारोही प्रभाव 26. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और दण्ड विधि संशोधन अध्यादेश, 1994 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी असंगतता की स्थिति में इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे।
-

THE UTTARAKHAND SPECIAL COURTS ACT, 2011
[UTTARAKHAND BILL NO. 19 OF 2011]

INDEX

Sections	Particulars	Page No.
1	2	3
<u>CHAPTER I</u> <u>PRELIMINARY</u>		
1.	Short title, extent and Commencement	
2.	Definitions	
<u>CHAPTER II</u> <u>ESTABLISHMENT OF SPECIAL COURTS</u>		
3.	Establishment of Special Courts	
4.	Cognizance of cases by Special Courts	
5.	Declaration of cases to Be dealt with under This Act	
6.	Effect of declaration	
7.	Jurisdiction of Special Court as to Trial of Offences	
8.	Procedure And powers of Special Courts	
9.	Appeal against orders of Special Courts	
10.	Transfer of Cases	
11.	Special Court not bound to Adjourn a Trial	
12.	Presiding Judge may act on evidence recorded by his Predecessor	
<u>CHAPTER III</u> <u>CONFISCATION OF PROPERTY</u>		
13.	Confiscation of property	
14.	Notice for Confiscation	
15.	Confiscation of property in certain cases	
16.	Transfer To be null And void	
17.	Appeal	
18.	Power to take possession	
19.	Refund of Confiscated money or property	

CHAPTER IV
MISCELLANEOUS

- 20.** Notice or Order not to be invalid for error in description
- 21.** Act to be in addition to any other law
- 22.** Bar to other Proceedings
- 23.** Protection of action taken in good faith
- 24.** Power to Make rules
- 25.** Notifications under section 3 and declarations under section 5 to be laid
- 26.** Overriding effect

THE UTTARAKHAND SPECIAL COURTS ACT, 2011
[UTTARAKHAND BILL NO. 19 OF 2011]

An Act

further to provide for the constitution of special courts for the speedy trial of certain class of offences and for confiscation of the properties involved.

Be it enacted by the Legislature of State of Uttarakhand in the Sixty Second Year of the Republic of India as follows: --

CHAPTER I
PRELIMINARY

- | | |
|---|---|
| Short title,
extent and
Commencement | 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Special Courts Act, 2011.
(2) It shall extend to the whole of the State of Uttarakhand.
(3) It shall come into force at once. |
| Definitions | 2. In these Act, unless there is anything repugnant in the subject or context-
(a) "Act" means Prevention of Corruption Act, 1988.
(b) "Authorized officer" means any serving officer belonging to Uttarakhand Higher Judicial Service and who is or has been Session Judge/Additional Sessions Judge, nominated by the State Government with the concurrence of the High Court for the purpose of section 13;
(c) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) ;
(d) "Declaration" in relation to an offence, means a declaration made under section-5 in respect of such offence;
(e) "Offence" means an offence of criminal misconduct which attracts application of clause (e) of sub-section (1) of section 13 of the Act either independently or in combination with any other provision of the Act or any of the provision of Indian Penal code. (49 of 1988); |

- (f) **"Special Court"** means a Special Court established under section 3; and
- (g) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Code or the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Code or the Act.

CHAPTER II

ESTABLISHMENT OF SPECIAL COURTS

- | | |
|---|---|
| Establishment of Special Courts | <p>3. (1) The State Government shall, for the purpose of speedy trial of offence, by notification, establish as many Courts as considered adequate to be called Special Courts.</p> <p>(2) A Special Court shall be presided over by a Judge to be nominated by the State Government with the concurrence of the Uttarakhand High Court at Nainital</p> <p>(3) No person shall be qualified for nomination as a Judge of a Special Court unless he is a member of Uttarakhand Higher Judicial Service and is or has been a Sessions Judge/Additional Sessions Judge in the State.</p> |
| Cognizance of cases by Special Courts | <p>4. A Special Court shall take cognizance of and try such cases as are instituted before it or transferred to it under section 10.</p> |
| Declaration of cases to Be dealt with under This Act | <p>5. (1) If the State Government is of the opinion that there is prima-facie evidence of the commission of an offence alleged to have been committed by a person, who has held or is holding public and is or has been public servant within the meaning of clause (c) of section 2 of the Prevention of Corruption Act, 1988 in the State of Uttarakhand, the State Government shall make a declaration to that effect in every case in which it is of the aforesaid opinion.</p> <p>(2) Such declaration shall not be called in question in any Court.</p> |
| Effect of declaration | <p>6. (1) On such declaration being made, notwithstanding anything in the</p> |

Code or any other law for the time being in force, any prosecution in respect of the offence shall be instituted only in a Special Court.

- (2) Where any declaration made under section-5 relates to an offence in respect of which a prosecution has already been instituted and the proceedings in relation thereto are pending in a Court other than Special Court under this Act, such proceedings shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, stand transferred to Special Court for trial of the offence in accordance with this Act.

**Jurisdiction of
Special Court
as to Trial of
Offences**

7. A Special Court shall have jurisdiction to try any person alleged to have committed the offence in respect of which a declaration has been made under section 5, either as principal, conspirator or abettor and All of them can be jointly tried therewith at one trial in accordance with the Code.

**Procedure And
powers of
Special Courts**

8. (1) A Special Court shall, in the trial of such cases, follow the procedure prescribed by the Code for the trial of warrant cases before a Magistrate.
- (2) Save as expressly provided in this Act, the provisions of the Code and of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, apply to the proceedings before a Special Court and for the purpose of the said provisions, the persons conducting a prosecution before a Special Court shall be deemed to be a Public Prosecutor.
- (3) A Special Court may pass, upon any person convicted by it, any sentence authorized by law for the punishment of the offence of which such person is convicted.

**Appeal against
orders of
Special Courts**

9. (1) Notwithstanding anything in the Code, an appeal shall lie from any judgment and sentence of a Special Court to the Uttarakhand High Court at Nainital both on facts and law.

- (2) Except as aforesaid, no appeal or revision shall lie in any court from any judgment, sentence or order of a Special Court.
- (3) Every appeal under this section shall be preferred within a period of thirty days from the date of judgment and sentence of a Special Court :

Provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied for reasons to be recorded in writing that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the period.

Transfer of Cases

10. Notwithstanding the other provisions of this Act, it would be open to the Uttarakhand High Court at Nainital to transfer cases from one Special Court to another.

Special Court not bound to Adjourn a Trial

11. (1) A Special Court shall not adjourn any trial for any purpose unless such adjournment is, in its opinion, necessary in the interests of justice and for reasons to be recorded in writing.
- (2) The Special Court shall endeavor to dispose of the trial of the case within a period of one year from the date of its institutions or transfer, as the case may be.

Presiding Judge may act on evidence recorded By his Predecessor

12. A Judge appointed under section 3 to preside over a Special Court may act on the evidence recorded by his predecessor or predecessors or partly recorded by his predecessor or predecessors and partly recorded by himself.

CHAPTER III **CONFISCATION OF PROPERTY**

Confiscation of property

13. (1) Where the State Government, on the basis of prima-facie evidence, have reasons to believe that any person, who has held or is holding public office and is or has been a public servant. has committed the offence, the State Government may, whether or not the Special

Court has taken cognizance of the offence, authorize the Public Prosecutor for making an application to the authorized officer for confiscation under this Act of the money and other property, which the State Government believe the said person to have procured by means of the offence.

(2) An application under sub-section (1)—

(a) shall be accompanied by one or more affidavits, stating the grounds on which the belief, that the said person has committed the offence, is founded and the amount of money and estimated value of other property believed to have been procured by means of the offence; and

(b) shall also contain any information available as to the location for the time being of any such money and other property, and shall, if necessary, give other particulars considered relevant to the context.

**Notice for
Confiscation**

14. (1) Upon receipt of an application made under section 13 of this Act, the authorized officer shall serve a notice upon the person in respect of whom the application is made (hereafter referred to as the person affected) calling upon him within such time as may be specified in the notice, which shall not be ordinarily less than thirty days, to indicate the source of his income, earnings or assets, out of which or by means of which he has acquired such money or property, the evidence on which he relies and other relevant information and particulars, and to show cause as to why all or any of such money or property or both, should not be declared to have been acquired by means of the offence and be confiscated to the State Government.

(2) Where a notice under sub-section (1) to any person specifies any money or property or both as being held on behalf of such person by any other person, a copy of the notice shall also be served upon such other person.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the

evidence, information and particulars brought on record before the authorized officer, by the person affected or the State Government shall be open to be rebutted in the trial before the special court provided that such rebuttal shall be confined to the trial for determination and adjudication of guilt of the offender by the special court under this Act.

Confiscation of property in certain cases

- 15.** (1) The authorized officer may, after considering the explanation, if any, to the show cause notice issued under section 14 and the materials available before it, and after giving to the person affected (and in case here the person affected holds any money or property specified in the notice through any other person, to such other person also) a reasonable opportunity of being heard, by order, record a finding whether all or any other money or properties in question have been acquired illegally.
- (2) Where the authorized officer specifies that some of the money or property or both referred to in the show cause notice are acquired by means of the offence, but is not able to identify specifically such money or property, then it shall be lawful for the authorized officer to specify the money or property or both which, to the best of his judgment, have been acquired by means of the offence and record a finding, accordingly, under sub-section (1).
- (3) Where the authorized officer records a finding under this section to the effect that any money or property or both have been acquired by means of the offence, he shall declare that such money or property or both shall, subject to the provisions of this Act, stand confiscated to the State Government free from all encumbrances:

Provided that if the market price of the property confiscated is deposited with the authorized officer, the property shall not be confiscated.

- (4) Where any share in a Company stands confiscated to the State Government under this Act, then, the Company shall,

notwithstanding anything contained in the Companies Act, 1956 or the Articles of Association of the Company, forthwith register the State Government as the transferee of such share.

- (5) Every proceeding for confiscation of money or property or both under this Chapter shall be disposed of within a period of six months from the date of service of the notice under sub-section(1) of section-14.
- (6) The order of confiscation passed under this section shall, subject to the order passed in appeal, if any, under section 17, be final and shall not be called in question in any Court of law.

**Transfer To be
null And void**

- 16.** Where, after the issue of a notice under section 14, any money or property or both referred to in the said notice are transferred by any mode whatsoever, such transfer shall, for the purposes of the proceedings under this Act, be void and if such money or property or both are subsequently confiscated to the State Government under section 15, then, the transfer of such money or property or both shall be deemed to be null and void.

Appeal

- 17.** (1) Any person aggrieved by any order of the authorized officer under this Chapter may appeal to the High Court within thirty days from the date on which the order appealed against was passed.
- (2) Upon any appeal preferred under this section the High Court may, after giving such parties, as it thinks proper, an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit.
- (3) An appeal preferred under sub-section (1) shall be disposed of preferably within a period of six months from the date it is preferred, and stay order, if any, passed in an appeal shall not remain in force beyond the prescribed period of disposal of appeal.

**Power to take
possession**

- 18.** (1) Where any money or property or both have been confiscated to the State Government under this Act, the concerned authorized officer

shall order the person affected, as well as any other person, who may be in possession of the money or property or both to surrender or deliver possession thereof to the concerned authorized officer or to any person duly authorized by him in this behalf, within thirty days of the service of the order:

Provided that the authorized officer, on an application made in that behalf and being satisfied that the person affected is residing in the property in question, may instead of dispossessing him immediately from the same, permit such person to occupy it for a limited period to be specified on payment of market rent to the State Government and thereafter, such person shall deliver the vacant possession of the property.

- (2) If any person refuses or fails to comply with an order made under sub-section (1), the authorized officer may take possession of the property and may, for that purpose, use such force as may be necessary.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) the authorized officer may, for the purpose of taking possession of any money or property or both referred to in sub-section (1), requisition the service of any police officer to assist and it shall be the bounden duty of such officer to comply with such requisition.

**Refund of
Confiscated
money or
property**

- 19. Where an order of confiscation made under section 15 is modified or annulled by the High Court in appeal or where the person affected is acquitted by the Special Court, the money or property or both shall be returned to the person affected and in case it is not possible for any reason to return the property, such person shall be paid the price thereof including the money so confiscated with the interest at the rate of five percent per annum thereon calculated from the date of confiscation.

**CHAPTER IV
MISCELLANEOUS**

Notice or Order not to be invalid for error in description	20.	No notice issued or served, no declaration made and no order passed, under this Act shall be deemed to be invalid by reason of any error in the description of the property or person mentioned therein, if such property or person is identifiable from the description so mentioned.
Act to be in addition to any other law	21.	The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force, and nothing contained herein shall exempt any public servant from any proceeding which might, apart from this Act, be instituted against him.
Bar to other Proceedings	22.	Save as provided in sections 9 and 17 and notwithstanding anything contained in any other law, no suit or other legal proceedings shall be maintainable in any Court in respect of any money or property or both ordered to be confiscated under section 15.
Protection of action taken in good faith	23.	No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act.
Power to Make rules	24.	The State Government may, by notification, make such rules, if any, as it may deem necessary for carrying out the purposes of this Act.
Notifications under section 3 and declarations under section 5 to be laid	25.	Every notification made under sub-section (1) of section 3 and every declaration made under sub-section (1) of section 5 shall be laid, as soon as may be, after they are made, before the State Legislature.
Overriding effect	26.	Notwithstanding anything in the Prevention of Corruption Act, 1988 and the Criminal Law Amendment Ordinance, 1944 or any other law for the time being in force, the provisions of this Act shall

prevail in case of any inconsistency.
